



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 कार्तिक 1931 (श0)
(सं0 पटना 556) पटना, सोमवार, 2 नवम्बर 2009

सं0 बी०/समा 02-1012/2009-मं०सा०-643
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(सामान्य शाखा)

संकल्प
27 मई 2009

महान क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी लोक नायक स्व० जय प्रकाश नारायण ने बिहार आंदोलन का नेतृत्व करते हुए दिनांक 05 जून, 1975 को गाँधी मैदान, पटना की ऐतिहासिक रैली में 'सम्पूर्ण क्रांति' का आह्वान किया था। उनके इस आह्वान ने बिहार ही नहीं पूरे देश को एक नई सोच एवं दिशा दी। इस दिन के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक वर्ष 05 जून को पटना गाँधी मैदान के दक्षिण-पश्चिम छोर पर स्थित गोलम्बर में स्थापित उनकी प्रतिमा स्थल पर 'सम्पूर्ण क्रांति दिवस' राजकीय समारोह के रूप में आयोजित किया जायेगा।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जन साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
नरेन्द्र कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 556-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>